



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 4, सोमवार, शाके 1941 अगस्त 26, 2019
Bhadra 4, Monday, Saka 1941-August 26, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur August 14, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/ 7632 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipality Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipal (Election) Rules, 1994 Chief Municipal Officer Municipal Board Rupbas has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Rupbas. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by Chief Municipal Officer.

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.

कार्यालय नगर पालिका रूपबास (भरतपुर)
प्रपत्र क

वार्ड संख्या	नवगठित वार्डों के सीमांकन का विवरण
1	रामधन , पदम सिंह के मकान से पूरे भरतपुर रोड का समस्त उत्तरी भाग, घडी का समस्त भाग , द्वारिकाधीश के मकान तक समस्त हरिजन बस्ती।
2	भरतपुर रोड के दक्षिणी भाग में कुम्हार मोहल्ला के समस्त मकान एवं गोपाल चक्की वाले के मकान के सामने दोनो ओर दिलशाह किरार के मकान से होते हुए भगवानदास खटीक के मकान तक
3	भरतपुर रोड के दक्षिण भाग में अम्बेडकर पार्क के सामने मोहन सिंह व ओमप्रकाश के मकान के दोनो तरफ होते हुए कैलाशी, मुरारी, रामदयाल के मकान से उपर समस्त जाटव मोहल्ला व जाटव चौक लीला बाबू के मकान तक तथा पूर्व में लाल सिंह धनपाल आदि के मकान के दोनो ओर तक।
4	भरतपुर रोड अमरसिंह ठाकुर के मकान से ऋशी सेठ , गोपाल सेठ के मकान से होते हुए रमेश कारई वाली गली से होकर सत्यप्रकाश , किशनलाल, दुर्गा पटवारी , चन्द्रभान पंडित वाली गली दोनो ओर ललित डॉक्टर की दुकान से होते हुए खारा कुआ वाली गली , कडेरा बस्ती , खंडूजा वाली गली ।
5	देवेन्द्र गौड के वाडे से अशोक खितोलिया वाली गली दोनो ओर से होते हुए अतर सिंह पी.टी. आई.के घर से होते हुए रज्जो कटारा टाउन पोस्ट ऑफिस वाली गली दीपक इलेक्ट्रीकल तक। कुल्लो नाई वाली गली दोनो ओर पारस मोहल्ला , त्रिभुवन पचौरी के घर तक।
6	कुशवाह धर्मशाला से लाखन गुट्टी के मकान से सुरेश के मकान से रूपसिंह के मकान होते हुए दोनो ओर । हरदयाल शिवदयाल वाली गली से दोनो ओर होते हुए विश्णु घी वाले के मकान तक व पीपल मोहल्ला एवं वेदी कुशवाह के घर से दाताराम व राजू के घर की ओर

7	हरि डॉक्टर के मकान से राधाकिशन , वीरो जैन वाली गली दोनो और सीताराम बाजार , सोहन लाल पंजाबी के मकान से रोशन मुम्बई वाली गली से होते हुए चौधरी मौहल्ला , बंगला पौठा , ठाकुर मौहल्ला वाली समस्त गली दोनो ओर
8	बड़डा गडरिया के बाडे से समस्त कोली मौहल्ला जयन्ती पंडित के मकान के पीछे वाली गली तक व प्रदीप हरिजन के घर से कलुआ हरिजन , निरोती वाली गली दोनो ओर से होते हुए , ओमप्रकाश चौहान , अनार सिंह चौहान वाली गली से होते हुए गुलाब सिंह , गौपाल सिंह हरिओम वाली गली से होते हुए दोनो ओर जयसिंह के मकान गौरव पथ।
9	धर्मसिंह कुशवाह के मकान के सामने दोनो ओर होते हुए राठौर मौहल्ला , धोबी पाडा , धीमर पाडा , देवी मंदिर , सुनील कैशियर के मकान से होते हुए फूटी कचहरी , महेश बिजली वाले के मकान तक ।
10	पुरानी बैंक प्याउ मुकेश जी के मकान से दोनो ओर होते हुए सत्यप्रकाश वैश्य के मकान से खारा कुआ होते हुए जोगी मौहल्ला मवासी जोगी के मकान से दोनो ओर होते हुए अजय विजय वाली , गली तेली पाडा नत्थो के मकान तक व गोपाल जोगी वाली गली दोनो ओर व भगवानदास पंजाबी के बाडे के सामने लाखन जोगी कन्हैया नाटोज , अरोडा हवेली , पूरन चाय वाले , रामबाबू सेठ के मकान के सामने से दोनो ओर होते हुए गुल्ला की दुकान के सामने वाली गली तक ।
11	मुंशी भारद्वाज के मकान से दोनो ओर , नेमी पंडित वाली गली , कंगाल मौहल्ला , रछोईया मौहल्ला , गणेश मंदिर वाली गली के दोनो ओर, पुजारी मौहल्ला, राधे वैघ जी के मकान से गोपीनाथ मंदिर से दोनो ओर होते हुए नारायण हलवाई , कांती सेठ , महेश भांग वाले, देवेन्द्र की दुकान, महादेव चौक, गोपी चंद प्रधान के मकान से होते हुए पुराने थाने तुलसी चबूतरा तक ।
12	घूरेमल की धर्मशाला आदर्श विधा मंदिर , अमरसिंह दौरदा वाले के मकान , लख्खो सेठ , के मकान से दोनो ओर होते हुए पशु अस्पताल के सामने वाली गली मे पांडे मास्टर , रज्जो जैन , राकेश भातरा के दोनो ओर की गली से होते हुए सरकारी अस्पताल , मिडिल स्कूल , पुरानी तहसील के बगल में नंगा नेता के मकान तक ।
13	पशु अस्पताल के पीछे वाली सम्पूर्ण गली , नट बस्ती , लटूर हरिजन , गोयल रिसोर्ट , एस.डी. एम. कार्यालय के पीछे कोली बस्ती व पंचायत समिति के पीछे , हरवंश टेलर वाली गली , अंधाना वाली गली , मटोली तहसीलदार वाली गली , क्रय-विक्रय के आस- पास का क्षेत्र , रेलवे कॉलोनी , धनी राम कॉलोनी , पंचायत समिति क्वार्टर , ।
14	वाटर वॉक्स , तहसील परिसर , अटल सेवा केन्द्र के पीछे वाली गली से होते हुए दोनो ओर , बनिया वाले कुआ से महाराज सिंह ठाकुर के मकान तक व समस्त जगन कॉलोनी।
15	रेलवे फाटक से प्रारम्भ होकर मैन बाजार से होते हुए पंजाबी गली , निरंजन धर्मशाला से होते हुए बांके बिहारी कॉलोनी , बच्चू डी.जे साउण्ड , योगेश प्रभाकर , दिनेश मास्टर वाली गली , शिवचरण नेता के मकान से होते तारा पटवारी के मकान तक मनुआ सेठ के दोनो तरफ रा0उ0मा0वि0 रेलवे स्टेशन तक।
16	रेलवे फाटक महाराज सिंह की दुकान सिंघावली रोड दोनो ओर , शिवराम के कुआ तक व गंगा मंदिर के सामने व बगल मे मुकेश पंच वाली गली , नैमी सेठ वाली गली से बीघा हरिजन के घर से होते हुए प्रहलाद के मकान से चौकोरा रोड तक ।
17	वंरखण्डी कॉलोनी मुरारी सेठ की दुकान से वंरखण्डी महादेव के दोनो ओर की नैमी नाई , सुरेश परमार , संतोश सिकरवार , बनबारी मास्टर , विश्णु कश्यप , हाकिम ठेकेदार वाली गली व दूसरी ओर सूरजभान , मुकेश खटीक, महेश भार्मा वाली गली।
18	देवा रावत के मकान से बजाज भोरूम से पहले वाली गली से होते हुए भानूप्रताप के मकान से होते हुए वासदेव के मकान से सतीश लुहार के मकान से होते हुए नंदू पंजाबी , रामरती , गोपाल सोनी , भगवान सिंह चाहर , रामवीर बाबूजी , बजरंग मास्टर के आगे व पीछे वाली गली , दाताराम धोबी वाली गली , बलबंत मास्टर वाली गली से पी.एन. बी.बैंक के सामने गली तक।
19	चरन सिंह , रामप्रकाश ठाकुर के मकान से हीरो हॉण्डा एंजेसी होते हुए भरतपुर – धौलपुर रोड सालिगराम की कोठी के बगल शिवनगर कॉलोनी , बिजली घर कॉलोनी होते हुए ओमप्रकाश मास्टर कौशल बेडिया के मकान होते हुए मिठठन धोबी के मकान तक ।
20	रेलवे फाटक के पास पी.डब्ल्यू.डी. ऑफिस से धौलपुर रोड पानी की टंकी तक व कटारा कॉलोनी नवल किशोर पुजारी के मकान से बाँबी के मकान से मुदगल मैरिज होम के बगल से होते हुए रामबाबू नौहरदा वाले जगदीश पाराशर रघुवीर पाराशर के मकान से होते हुए जगनेर रोड से होते

	रेलवे कॉलोनी पी.डब्ल्यू.डी. ऑफिस तक ।
21	जगनेर रोड घनश्याम सैक्ट्री वाली गली के पीछे से चन्द्रकला धीमर जितेन्द्र पंडित से महावन डाक्टर वाली गली टोस्ट फैक्ट्री दाउदयाल पी.ई.ओ. के मकान से सामरे वाले पंडित चकसामरी रोड होते हुए सम्पूर्ण सिंगी वालो के आस- पास के क्षेत्र से जगनेर रोड मानसिंह जाट के मकान तक
22	चकसामरी रोड तिराहे से जगनेर रोड दोनो तरफ गैस एंजेसी , रामजीलाल मास्टर से होते हुए नगला काचेरा स्कूल के सामने वाली गली टीकम टेलर, बिजेन्द्र , महेन्द्र मास्टर जावो , अतर सिंह के मकान से होते हुए चकसामरी रोड किस्सो व सेठी वाले के मकान तक ।
23	हेमो की मील से जगनेर रोड के दोनो और नगला काचेरा स्कूल के सामने वाली गली अजय सिंह रमेश के मकान से होते हुए माधवानंद कॉलेज समृद्धि स्कूल होते हुए हेमो की मील तक ।
24	अथाई से लेकर समस्त ठाकुर मौहल्ला कप्तान सिंह ठाकुर व समस्त जाटव मौहल्ला और रूपबास जटमासी रोड पर बाहर स्थित समस्त आबादी मय ब्राम्हण मौहल्ला कमल कुशवाह तक ।
25	अंथाई से लेकर जगदीश की दुकान से भोड का मढ से होते हुए स्कूल मंदिर से होते हुए रास्ते पर काछी कुदया तक का समस्त भाग दमदमा रास्ते पर चढते हुए भबूती बघेल के सामने रास्ते के दूसरी तरफ चलकर भोभाराम के मकान तक का क्षेत्र मई (बे-चिराग)

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका रूपबास

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।